



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2019/आषाढ़ 12, 1941
No. 182] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2019/ASHADHA 12, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2019

सं.15/2015-20

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के परिशिष्ट-4अ में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/40/एएम-20/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के परिशिष्ट-4अ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. तालिका में, अंतिम पंक्ति में क्र.सं. 9 पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है।

क्र. सं.	आयात मद (मदें)	सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से आयात पूर्व शर्त के साथ निर्यात दायित्व अवधि
9	किसी भी रूप में अखरोट	6 महीने

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: आयात पूर्व शर्त और अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत घटाई गई निर्यात दायित्व अवधि के साथ अखरोट के किसी भी रूप में आयात को परिशिष्ट-4अ के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से रखा जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 3rd July, 2019

No. 15/2015-2020**Subject: Amendments in Appendix 4J of Hand Book of Procedures 2015-20 - reg**

F. No. 01/94/180/40/AM20/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in Appendix 4J of Hand Book of Procedures 2015-2020:

1. In the table, the following entry is made at serial no. 9 in the last row

Serial No.	Import Item(s)	Export Obligation Period with pre-import condition from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority
9	Walnuts in any form	6 months

Effect of this Public Notice: Import of 'Walnuts in any form' is placed under Appendix 4J with pre-import condition and reduced EO period under Advance authorization with immediate effect.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.